



All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)
Tatibandh, GE Road,
Raipur-492 099 (CG)
www.aiimsraipur.edu.in

क्रमांक/No.AIIMSRPR/BIO/RN/INTRA/miR145/02/8234

दिनांक: 05-04-2024

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate


विषय/Sub: PAC purchase for supply of consumable kits through the intramural research project of Dr. Rachita Nanda, Professor, Department of Biochemistry, AIIMS, Raipur

These consumable packs are required for the financially approved intramural research project of Dr. Rachita Nanda (Principal Investigator), entitled- **“Expression profile of miR-145, connective tissue growth factor (CTGF) and CX3CL1 in systemic lupus erythematosus: A prospective study”**, Department of Biochemistry at AIIMS, Raipur from Qiagen India Pvt. Ltd. on Proprietary basis. The local agent for above item is Shristi Enterprises, Jail Road, Raipur. The proposal submitted by the Principal Investigator, and PAC Certificate are attached which is to be uploaded on website.

The above documents are being uploaded for open information to submit objections/comments, if any from any manufacturer/dealer/distributor regarding proprietary nature of the consumables /items within 7 days from the date of issue/ upload of notification by reference no. AIIMSRPR/BIO/RN/INTRA/miR145/02/8234. The comments should be sent to Room No.2118, Office of Biochemistry 2nd floor, AIIMS Medical College, Gate No.5, Tatibandh, GE Road, Raipur on or before 12/04/2024 up to 3.00 pm. or email on biochem@aiimsraipur.edu.in, failing which it will be presumed that any other manufacturer/dealer/distributor having no objection/comment to offer and case will be decided on merits.

संलग्न/Enclosure:

Certificate for Purchase of Proprietary Article



Dr. Rachita Nanda
05/04/24

(डॉ. रचिता नंदा)
प्रमुख अन्वेषक, प्राध्यापक,
जैव रसायन विभाग
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान,
रायपुर (छ.ग.)



Department of Biochemistry
 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़)
All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)
 Tatibandh, GE Road, Raipur-492 099 (CG)
www.aiimsraipur.edu.in


स्वामित्वप्रमाण-पत्र
Proprietary Article Certificate

फाइल संख्या औरसंदर्भ File Number and Reference								
1	सामग्रीकाविवरण Description of article	These consumable kits are required for analysis of various samples of patients/participants under the intramural project grant of myself Dr. Rachita Nanda (Principal Investigator), Professor, project title- Expression profile of miR-145, connective tissue growth factor (CTGF) and CX3CL1 in systemic lupus erythematosus: A prospective study. <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>S. no.</th> <th>Complete Description of items (Specifications, Catalog No.)</th> <th>Qty. Req.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">As per annexure-2</td> </tr> </tbody> </table>	S. no.	Complete Description of items (Specifications, Catalog No.)	Qty. Req.	1	As per annexure-2	
S. no.	Complete Description of items (Specifications, Catalog No.)	Qty. Req.						
1	As per annexure-2							
2	पूर्वानुमानितमात्रा / वार्षिकआवश्यकता Forecast of quantity/Annual requirement	As mentioned in above table at point.01						
3	उपरोक्तमात्रा हेतुअनुमानितमूल्य Approximate estimated value for above	Total Amount ₹ [REDACTED] /-Inclusive 12% GST)						
4	निर्माताकानाम एवं पता Maker's Name and Address	QIAAGEN India Pvt. Ltd. Registered Office: Plot no. 9, Corporate One, District centre : Jasola, New Delhi 110025 Gourav S Pednekar Associate Regional Sales Manager-MD X Sales. Contact: Mob no:+91-8800492236 Email: gaourav.pednekar@qiagen.com						
5	अधिकृतडीलर/ स्टाकिस्टकानाम Name(s) of authorised dealers/stockists	M/s. Shrishti Enterprises Address: B-6 , Garchaz Complex, Opposite J.N.M Medical College, Raipur(C.G)492001 Mr. Vikas Singh Contact: Mob no:7697362474, Phone no. 0771-2582122 Email:vikash@shristigroup.com						
6	मैंपीएसी के आधारपरउपरोक्त खरीदकोस्वीकारकरताहूँ। और यह प्रमाणित करताहूँकि: नोट- (बी) (सी-1) या (सी-2) मेंसेकेवल एक कोबनाए रखने के लिए टिककरेंजोभीलागूहोऔरदूसरोंकोकाटदें। कृपया ए टिककरपुष्टिकरेंइसकेबिनापीएसीप्रमाणपत्र अवैध होगा। I approve the above on PAC basis and certify that:- Note: Tick to retain only one out of (b) (c-1) or (c-2) whichever is applicable and cross out others. Please do confirm (a) by ticking it-without which PAC certificate will be invalid.							
6(a)	यह एकमात्र फर्महैजोइसमदकानिर्माण / संग्रहणकररहाहै। और This is the only firm who is manufacturing / stocking this item. AND	✓						
6(b)	किसीअन्य फर्म द्वारासमरूपमदनिर्मित / विक्रय नहींकियाजाताहैजिसकाउपयोगइसकेबदलेकियाजासकताहै। अथवा A similar article is not manufacturing / sold by any other firm, which could be used in lieu OR	✓						
6(c-1)	कोईअन्य मेक / ब्रांडनिम्नलिखितकारणों (जैसे ओईएम / वारंटी के) के लिए उपयुक्तनहींहोगा। अथवा no other make/brand will be suitable for following tangible reasons (like OEM/warranty spares) OR	✗						

6(c-2)	कोई अन्य मेक / ब्रांड निम्नलिखित कारणों से उपयुक्त नहीं होगा (अगर पीएसी पिछले खरीद में भी दिया गया था, तो कृपया इसके बाद से अधिक स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रयास करें)। तथा No other make/brand will be suitable for following intangible reasons (if PAC was also given in the last procurement cycle, please also bring out efforts made since then to locate more sources): OR	X
7	प्रस्ताव के लिए वित्तशाखा की सहमति का संदर्भ (कार्रवाई भंडार और लेखा विभाग द्वारा की जायेगी) Reference of concurrence of finance wing to the proposal (Action will be taken by Stores and Account Department)	

पिछले तीन सालों में इस मद की पीएसी खरीद का इतिहास नीचे दिया जा सकता है (यदि कोई हो) History of PAC purchase of this item for past three years may be given below (if any)			
प्रदायक का नाम Name of the supplier	---		
आदेश / निविदा संदर्भ और दिनांक order/tender reference & date	आदेशित मात्रा quantity ordered	आदेश पर मूल दर Basic rate on order (Rs.)	प्रतिकूल प्रदर्शन रिपोर्ट अगर कोई हो adverse performance reported if any
---	---	---	---

दिनांक 27/02/2024
Date

अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर
Signature 

अधिकारी का पदनाम
Designation of Officer Professor

Biochemistry

डॉ. रचिता नंदा
Dr. Rachita Nanda
प्राचार्य (जीव रसायन विभाग)
Professor (Dept. of Biochemistry)
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छ.ग.)
All India Institute of Medical Sciences, Raipur (C.G.)

Annexure-2

Sl. no.	Complete Description of items	Quantity Required
1.	MicroRNA isolation from human serum/plasma kit, High-purity RNA suitable for molecular biology application, Pack size-50 reactions per pack, Expiry: minimum 8-10 months at the time of supply	01 Pack
2.	Reverse transcription kit for miRNA, with quality control template for monitoring performance, LNA technique, suitable for molecular biology applications Pack size-64 cDNA reactions per pack, Expiry: minimum 8-10 months at the time of supply	01 Pack
3.	SYBR green PCR kit, LNA technique, suitable for molecular biology applications Pack size-200 reactions per pack, Expiry: 8-10 months at the time of supply	01 Pack
4.	miR-145-5p, miRNA PCR Assay, LNA technique, minimum 1pg RNA starting material required, suitable for molecular biology applications Pack size-200 reactions per pack, Expiry: 8-10 months at the time of supply	01 Pack

